



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9—सितम्बर 15, 2006 (भाद्रपद 18, 1928)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9—SEPTEMBER 15, 2006 (BHADRA 18, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

## भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 5 अगस्त 2006

एसबीडी क्र. 05/06-07--भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंक अधिनियम, 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक श्री एस. के. हरिहरन के स्थान पर, श्री वाई. विजयानंद, उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी), भारतीय स्टेट बैंक, सहयोगी एवं अनुषंगी समूह, मुंबई को दिनांक 01.08.2006 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करता है :--

- (i) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
- (ii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- (iii) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
- (iv) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- (v) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- (vi) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
- (vii) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ओम प्रकाश भट्ट  
अध्यक्ष

दिनांक 6 अगस्त 2006

एसबीडी क्र. 06/06-07--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की

धारा 25 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक डा. (मि.) भूपिन्दर कौर के स्थान पर श्री ए. के. गुप्ता को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 6 अगस्त 2006 से 5 अगस्त 2009 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ओम प्रकाश भट्ट  
अध्यक्ष

दिनांक 24 अगस्त 2006

एसबीडी क्र. 07/06-07--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25, की उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री रवि रामबाबू के स्थान पर श्रीमती अमरजीत कौर, ओल्ड मोती बाग एनेक्स पटियाला-147001 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 28 अगस्त 2006 से 27 अगस्त 2009 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ओम प्रकाश भट्ट  
अध्यक्ष

## सरकारी और बैंक लेखा विभाग

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई, दिनांक 18 अगस्त 2006

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, जुलाई 2006 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

## सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
कुछ नहीं					

## सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
भायखला (मुंबई सर्कल)					
9% राहत पत्र 1999 (खीमेट)					
जीपीएच	रु. 3,00,000/-	राजा जी. कुलकर्णी	4.5.2000	राजा जी. कुलकर्णी	06.25.94
बीसीएन-020061		कुसुम आर. कुलकर्णी		कुसुम आर. कुलकर्णी	19.8.2005

जे. एम. बावा  
सहायक प्रबंधक

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

मुम्बई-400 005, दिनांक 14 अगस्त 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 3-डब्ल्यू सी. ए. (4)/2/2004-2005--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर से निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनकी विनती पर हटा लिए गए हैं :--

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल तारीख
1	2	3	4
1.	003528	श्री संघवी वसंतलाल शीवलाल 31, मीना बिल्डिंग, 353/5ए आर बी मेहता मार्ग, घाटकोपर, मुंबई-400 077	01.04.2004

1	2	3	4
2.	008433	श्री डिसुझा लेवीस रिव्हरसाईड व्ह्यू सी-13, नं. 387 मीरा मार्ग अपोझिट स्वीमींग पूल नियर इंदौर स्टेडियम पनजी, गोवा-403001	01.04.2004
3.	009161	श्री मनीअर रमेशचंद्र वंद्रावन 602-1675 होर्नबे स्ट्रीट व्हैनकोवर, बीसी, व्ही6जेड2एम3 कनाडा-0, कनाडा	01.04.2004
4.	039199	श्री संघवी संजय रमनलाल 32 रतनम नवयुग सोसा., जूहू वीले पार्ले (वे.) मुंबई-400 056	06.01.2005
5.	106594	नाझनिन एच. दलाल के-4/64 मेरवानजी कामा पार्क कामा रोड अंधेरी-वेस्ट मुंबई-400 058	01.04.2004

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

चैन्नई-600 034, दिनांक 18 अगस्त 2006

सं. 3एससीए(4)/4/2004-2005--यह संस्था सूचित करती है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम, 1988 के विनियम 18 के क्लॉज (बी) के खंड (1) के एक्ट, 1949 के भाग 20 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनकी प्रार्थना पर उनके नाम के समक्ष दी गई तिथि से सदस्यों के रजिस्टर से रद्द किया जाता है :-

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल तारीख
1.	007736	श्री जॉनी सी जे टीसी-19-1402 चकोला हाऊस मिशन क्वार्टर्स, थ्रिसुर-680005	14.08.2004
2.	008730	मिस सुलोचना एन. न्यू नं. 8 (ओल्ड नं. 20) 2 मेन रोड, आर. के. नगर चैन्नई-600028	15.08.2004
3.	030873	श्री प्रभु पूरन्दरदास प्रभुदास केयर ऑफ पी. आर. प्रभु रायरपथ, सिरसी-581401	31.03.2004

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2006

सं. यू. 16/53/99 चि. 2 (गुजरात)---कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. पी. बी. पतांकर	1.8.2006 से 31.7.2007	सरसपुर कार्य शाखा

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

-----

सं. यू. 16/53/2003 चि. 2 (गुजरात)---कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. डी. एम. खालसा	3.5.2006 से 2.5.2007	बड़ौदा

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

-----

सं. यू. 16/53/2002 चि. 2 (गुजरात)---कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. जी. एम. पटेल	22.6.2006 से 21.6.2007	खोखरा (अहमदाबाद)

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 5th August 2006

SBD. No. 05/2006-07.—In terms of Clause (c), Sub-Section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959 (38 of 1959), the State Bank of India hereby nominates Shri Y. Vijayanand, Dy. Managing Director & Group Executive (A&S), State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai, as a Director on the Boards of following Associate Banks with effect from 1st August, 2006 vice Shri S. K. Hariharan:—

- (i) State Bank of Bikaner & Jaipur
- (ii) State Bank of Hyderabad
- (iii) State Bank of Indore
- (iv) State Bank of Mysore
- (v) State Bank of Patiala
- (vi) State Bank of Saurashtra
- (vii) State Bank of Travancore

O. P. BHATT, Chairman

The 6th August 2006

SBD. No. 06/2006-07.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India nominated Shri Ashwani Kumar Gupta, 85 Green Park, Cool Road, Jalandhar, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Patiala for a period of three years with effect from 6th August 2006 to 5th August 2009 (both days inclusive) in place of Dr. (Ms.) Bhupinder Kaur.

O. P. BHATT, Chairman

The 24th August 2006

SBD. No. 07/2006-07.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, that State Bank of India has, in consultation with Central Government and Reserve Bank of India, nominated Smt. Amarjit Kaur, Old Moti Bagh Annexe, Patiala-147001, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Patiala for a period of three years with effect from 28th August 2006 to 27th August 2009 (both days inclusive) in place of Shri Ravi Rambabu.

O. P. BHATT, Chairman

## DEPARTMENT OF GOVERNMENT &amp; BANK ACCOUNTS

## (CENTRAL DEBT DIVISION)

Mumbai, the 18th August 2006

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended July 2006 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised:—

## List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

—NIL—

## List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Byculla, Mumbai Circle 9% Relief Bonds 1999 (Demat)					
GPH	Rs. 3,00,000/-	Raja G. Kulkarni	04.05.2000	Raja G. Kulkarni	06.25.94
BCN 020061		Kusum R. Kulkarni		Kusum R. Kulkarni	19.8.2005

J. M. BAVA,  
Asstt. Manager

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Mumbai-400005, the 14th August 2006

## (CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3 WCA (4)/2/2004-2005.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their Request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members:—

S No.	MRN	Member Name & Address	Removal Date
1	2	3	4
1.	003528	Mr. Sanghavi Vasantlal Shivilal 31, Meena Bldg., 353/5A R. B. Mehta Marg, Ghatkopar Mumbai-400077	01/04/2004
2.	008433	Mr. D' Souza Lewis Riverside View, C-13, No. 387, Miramarg, OPP Swimming Pool, NR Indoor Stadium, Panaji, Goa-403001	01/04/2004
3.	009161	Mr. Maniar Rameshchandra Vandnavan 602-1675, Hornby Street Vancouver, B C, V6Z2M3 Canada-0 Canada	01/04/2004
4.	039199	Mr. Sanghvi Sanjay Ramanlal, 32, Ratnam Navyug SOC, Juhu Scheme Vile Parley West Mumbai-400056	06/01/2005
5.	106594	Ms. Nazneen H. Dalal K-4/64, Merwanjee Cama Park, Cama Road Andheri-West, Mumbai-400058	01/04/2004

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

Chennai-600034, the 18th August 2006

No. 3 SCA (4)/4/2004-2005.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute

of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their request with effect from date(s) mentioned against the names of the following persons:—

S No.	MRN	Member Name & Address	Removal Date
1	2	3	4
1.	007736	Mr. Johny C. J. TC-19-1402, Chakola House, Mission Quarters, Thrissur-680005	14/08/2004
2.	008730	Ms. Sulochana N. New No. 8 (Old No. 20) 2nd Main Road, R.K. Nagar, Chennai-600028	15/08/2004
3.	030873	Mr. Prabhu Purandardas Prabhudas C/o P.R. Prabhu Rayarpath, Sirsi-581401	31/03/2004

ASHOK HALDIA, Secy.

#### EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th July 2006

No. U-16/53/99/Med.II(Guj).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I, hereby authorize the following Doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt:—

S. No.	Name	Period	Name of Centre
1.	Dr. P.B. Patankar	1.8.2006 to 31.7.2007	Saraspur Branch Office

Dr. KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner

No. U-16/53/2003/Med.II(Guj).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I, hereby authorize the following Doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt:—

S. No.	Name	Period	Name of Centre
1.	Dr. D.M. Khalsa	3.5.2006 to 2.5.2007	Baroda

Dr. KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner

No. U-16/53/2000/Med.II(Guj).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I, hereby

authorize the following Doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt:—

S. No.	Name	Period	Name of Centre
1.	Dr. G.M. Patel	22.6.2006 to 21.6.2007	Khokhra (Ahmedabad)

Dr. KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner